

Anant Raj Limited

CIN : L45400HR1985PLC021622

Head Off : H-65, Connaught Circus, New Delhi-110 001

Tel : 011-43034400, 23324127, 23323880, 43582879

E-mail : info@anantrajlimited.com Website : www.anantrajlimited.com

Regd. Office : CP-1, Sector-8, IMT Manesar, Haryana-122051

Tel : (0124) 4265817



ARL/CS/13350

February 7, 2024

<p>The Secretary, The National Stock Exchange of India Limited, "Exchange Plaza", 5th Floor, Plot No. C/1, G-Block, Bandra – Kurla Complex, Bandra (E), Mumbai-400051</p> <p>Scrip code: ANANTRAJ</p>	<p>The Manager Listing Department The BSE Limited, Phiroze Jee Jee Bhoy Towers, Dalal Street, Mumbai – 400001</p> <p>Scrip code: 515055</p>
---	---

Sub: Publication of Unaudited Financial Results (Standalone and Consolidated) for the quarter and nine months ended December 31, 2023

Dear Sir,

Pursuant to Regulation 47(3) of the Securities and Exchange Board of India (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015, please find enclosed copy of newspaper advertisement of unaudited financial results (Standalone and Consolidated) for the quarter and nine months ended December 31, 2023 as published in "The Economic Times" and "Navbharat Times" on February 7, 2024.

You are requested to kindly take the above information on your records.

Thanking You,

Yours Truly,

For **Anant Raj Limited**

Manoj Pahwa
Company Secretary
A7812

Encl: As above

Shaping Discourse on the Myriad Challenges Facing Global Economy

THE TIMES GROUP
ET NOW GBS Global Business Summit

Our Bureau

Mumbai: Thought leaders, economists and academics will come together at the ET Now Global Business Summit this week to craft strategies for navigating economic challenges that the world is facing.

The two-day summit will take place at the Taj Palace hotel in New Delhi on February 9-10. The day two will feature a distinguished lineup of speakers. PM Narendra Modi is the star speaker on the first day of the summit.

Throughline Inc. principal business strategist Thomas PM Barnett will offer insights on global economic trends and business strategies. Barnett has an extensive background in formulating and executing business strategies, and his insights can help businesses navigate the complex modern economic landscape.



Thomas PM Barnett
Principal business strategist, Throughline Inc.



Raghu Sundaram
Dean, NYU Stern School of Business



Roberto Azevêdo
Former director general, World Trade Organization



Robert Johnson
President, Institute for New Economic Thinking

NYU Stern School of Business' dean Raghu Sundaram will be bringing a wealth of knowledge on potential solutions grounded in both theoretical depth and practical wisdom.

Michael Spence, Nobel laureate in economics, will be providing groundbreaking perspectives on economic theory and policy, while former World Trade Organization director general Roberto Azevêdo will shed light on the role of global trade in addressing economic challenges.

INSIGHTFUL TAKEAWAYS

The insights can help businesses navigate the complex modern economic landscape

Azevêdo can provide crucial insights at a time when globalisation seems to be faltering and the World Trade Organization is struggling for relevance. As a leading advocate for

rethinking paradigms, Robert Johnson, president, Institute for New Economic Thinking (INET), will speak about identifying blind spots in the mainstream economy and building a just and equitable society.

The summit promises to be a hub of intellectual exchange, fostering collaborative solutions to global economic challenges. The global economy is struggling with high inflation, elevated interest rates, and complexities of the two regional wars.

Role of Lifelong Learning in Age of AI



SPIROS MARGARIS

Recently, speaking at the inaugural session of Global Partnership on Artificial Intelligence, the Hon'ble Prime Minister, Shri Narendra Modi, stressed upon the need for conviction, commitment, coordination and collaboration, from the entire world in order to create a global framework for the ethical use of AI.

The above statement truly testifies the importance of AI not in our day to day lives, but how it is going to shape or change the paradigm of future life of professionals across the globe.

In the 75th year of the Republic, India will start a National Programme on Artificial Intelligence and soon launch an AI Mission that aims to establish the computing powers of AI. This will provide better services to startups and innovators in India and also promote AI applications in the sectors of agriculture,

healthcare and education.

Gone are the days when education was confined to the early years of life, setting the foundation for a career that spanned a lifetime. In the age of AI, where technology is advancing at an exponential rate, the traditional model of education is no longer sufficient. Lifelong learning, a continuous and self-driven pursuit of knowledge and skills, has become essential for staying relevant in the workforce.

For as long as AI has existed in popular media and cultural conversations, people have feared the notion of robots taking all of our jobs. While sentiment AI is a long way off, the time has come for a frank conversation about the future of work and how humans can evolve their skillsets to keep up with the changing times.

We all need to understand that the driving force behind the need for perpetual learning is the rapid integration of AI into various sectors. Automation is reshaping job roles, rendering certain tasks obsolete, while creating new opportunities that demand a different skill set. To remain competitive, individuals must embrace a mindset of constant upskilling and reskilling, adapting to the changing demands of the job market.

One of the key benefits of lifelong learning in the age of AI is its ability to foster adaptability. The skills that are valuable today may not hold the same

relevance tomorrow. Lifelong learners, equipped with the ability to acquire new skills efficiently, can seamlessly transition between roles and industries as tech continues to evolve. This adaptability is a crucial component of future-proofing one's career.

The democratisation of information through online platforms and e-learning has made lifelong learning more accessible than ever. Professionals can now engage in courses, webinars, and certifications from the comfort of their homes, tailoring their educational journey to fit their schedules. This accessibility not only empowers individuals to take control of their career paths but also eliminates barriers that may have hindered learning opportunities in the past.

Employers are increasingly recognising the value of employees committed to lifelong learning. In a dynamic and competitive business environment, companies seek individuals who can adapt to change and contribute innovative solutions. Employees who invest in their continuous development not only enhance their personal growth but also become invaluable assets to their organisations.

The age of AI demands a paradigm shift in the way we approach education and career development. Lifelong learning is no longer an option but a necessity. Embracing a mindset of continuous improvement, adaptability,

and creativity will not only open doors to new opportunities but also ensure that humans remain at the forefront of innovation in the ever-evolving landscape of the Fourth Industrial Revolution.

As we navigate the complexities of the future, the commitment to lifelong learning will be the compass guiding individuals toward success.

Finally, remember that when people previously feared jobs would disappear and tasks would be replaced by machines, this was not necessarily the case. For instance, the introduction of automated teller machines (ATMs) did not eliminate bank tellers, but it did change their tasks. Another example is accountants and the introduction of Microsoft's Excel spreadsheet programme. Excel did not make accountants' jobs obsolete but enhanced their work and skills. So choose a career you enjoy and keep learning — so that if you need to change course in the future, you know how.

(The author is founder of Margaritis Ventures. He will be speaking at the ET Now Global Business Summit, 2024, in New Delhi.)

MOVERS AND SHAKERS

Tahilyani to head Tata Digital, Venky Replaces Him as Tata AIA Boss

Bengaluru | Mumbai: In a significant top-deck change, Tata Digital has appointed Naveen Tahilyani as the chief executive and managing director of the group's e-commerce unit, replacing Pratik Pal. Tahilyani is currently the CEO and MD of Tata AIA Life Insurance, which has appointed Venkatchalam H Venkatchalam — popularly known as Venky — as his replacement. Venky's appointment is subject to regulatory approval. Tahilyani will assume his new role on February 19. The move is seen as part of a larger plan to give momentum and executional heft to the digital e-commerce unit, officials close to the development said.

Sources said Tahilyani was handpicked by Tata Sons chairman N Chandrabosekaran after having demonstrated good execution in the insurance, banking and asset management business of the group.

Pal, who launched the much-hyped superapp 'Tata Neu', will continue in Tata Digital to "ensure continuity and contribute with his wealth of experience" to the firm, according to a company statement. Insiders say Chandrabosekaran had been dissatisfied with the overall state of the entity which houses the Tata Neu superapp.

Nokia Elevates Tarun Chhabra as India Chief

New Delhi: Finnish telecom giant Nokia has named Tarun Chhabra as the new India head. Chhabra, currently head of mobile networks and senior vice president at Nokia, and will assume the new position from April 1. Sanjay Malik, who has served as the head of Nokia India for almost eight years, has decided to retire from March 31, Nokia said in a statement Tuesday.

The reorganisation at the India unit is part of a global restructuring plan announced in October 2023 by Nokia to cut costs. As part of the plan, the company might have shed over 11,000 jobs globally.

"These actions will better position the company for longer-term growth and enable it to navigate the current market uncertainty," the company said.

Do you Know?

Cultivating Quality Conscience for Public Procurement at district level

The sensitisation programmes for District Level Officials (DLOs) are specially designed and customised as per the specific needs of the officials and to address the challenges they face. Being a regular activity, these programmes have achieved an encouraging impact and positive feedback from the stakeholders involved.

Bureau of Indian Standards
The National Standards Body of India

Bureau of Indian Standards - Faridabad Branch Office

EIH Limited

A MEMBER OF THE OBEROI GROUP

Registered Office : N-806-A, 8th Floor, Diamond Heritage Building
16, Strand Road Fairley Place, Kolkata – 700 001, India
Phone : 91-33-22486751 Fax : 91-33-22486785
Website: www.eihltd.com Email ID : isdho@oberoigroup.com
CIN : L55101WB1949PLC017981

EXTRACT OF STATEMENT OF FINANCIAL RESULTS FOR THE QUARTER AND NINE MONTHS ENDED 31ST DECEMBER, 2023

	(Rs. in Crores)					
	Standalone		Consolidated			
	3 months ended 31.12.2023	9 months ended 31.12.2023	3 months ended 31.12.2022	3 months ended 31.12.2023	9 months ended 31.12.2023	3 months ended 31.12.2022
1 Total Income from operations	680.07	1,624.37	524.49	769.87	1,844.96	603.22
2 Net Profit / (loss) before tax (before Exceptional items and/or Extraordinary items)	273.25	507.37	157.18	327.62	603.01	201.13
3 Net Profit / (loss) before tax (after Exceptional items and/or Extraordinary items)	250.95	485.07	136.14	303.72	579.11	199.40
4 Net Profit / (loss) after tax (after Exceptional items and/or Extraordinary items)	186.88	362.10	103.94	229.94	430.11	151.08
5 Total Comprehensive Income/ (loss) for the period [Comprising Profit / (Loss) for the period (after tax) and Other Comprehensive Income (after tax)]	185.49	357.94	98.86	228.92	431.19	156.54
6 Paid-up Equity Share Capital (Face Value - Rs. 2 each)	125.07	125.07	125.07	125.07	125.07	125.07
7 Other Equity in the Audited Balance Sheet as at 31st March, 2023		2,993.08			3,249.50	
8 Earnings per Equity Share on net profit after tax (fully paid up equity share of Rs. 2) :						
(a) Basic	2.99	5.79	1.66	3.51	6.65	2.28
(b) Diluted	2.99	5.79	1.66	3.51	6.65	2.28

Notes :

- The above is an extract of the detailed format of the Statement of Quarterly Financial Results filed with the Stock Exchanges under Regulation 33 of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015. The full format of the Statement of Financial Results is available on the Stock Exchange websites, www.bseindia.com, www.nseindia.com and on the Company's website, www.eihltd.com.
- The Statement of Financial Results were reviewed by the Audit Committee and were approved by the Board of Directors at its Meeting held on 6th February 2024.

VIKRAMJIT SINGH OBEROI
Managing Director and Chief Executive Officer
(DIN : 00052014)

Mumbai
6th February, 2024

ANANT RAJ LIMITED

CIN: L45400HR1985PLC021622

Regd. Office : Plot No.: CP-1, Sector-8, IMT Manesar, Haryana -122051, Telefax: 0124-4265817
Head Office : H-65, Connaught Circus, New Delhi-110001, Tele: 011-43034400, 011-23324127
E-mail: manojpahwa@anantrajlimited.com, Website: www.anantrajlimited.com

EXTRACT OF UNAUDITED CONSOLIDATED FINANCIAL RESULTS FOR THE QUARTER & NINE MONTHS ENDED DECEMBER 31, 2023

Sl. No.	PARTICULARS	(Rs. in Crores Except Per Share Data)					
		QUARTER ENDED			NINE MONTHS ENDED		YEAR ENDED
		31.12.2023 (Unaudited)	30.09.2023 (Unaudited)	31.12.2022 (Unaudited)	31.12.2023 (Unaudited)	31.12.2022 (Unaudited)	31.03.2023 (Audited)
1.	Total Income from Operations (Net)	401.02	340.83	280.16	1,067.62	714.97	1,004.86
2.	Net Profit/(Loss) for the period (before Tax Exceptional items, and share of profit (loss) in associates and jointly controlled entities)	86.30	76.15	56.55	219.92	127.99	196.71
3.	Net Profit/(Loss) for the period (before Tax, share of Profit/(Loss) in associates and jointly controlled entities and after Exceptional items)	86.30	76.15	56.55	219.92	127.99	196.71
4.	Net Profit/(Loss) for the period after Tax, (after Exceptional items and share of profit(loss) in associates and Jointly controlled entities)	71.43	60.37	45.16	181.92	102.68	151.12
5.	Total comprehensive Income for the period [Comprising Profit for the period (after tax) and other comprehensive income (after tax)]	71.43	60.37	45.16	181.92	102.68	151.53
6.	Paid up Equity Share Capital (face value of Rs. 2/- each)	64.82	64.82	64.82	64.82	64.82	64.82
7.	Other Equity						2760.26
8.	Earnings Per Share (of Rs. 2/- each)						
	(a) Basic EPS (Rs.) (Not annualized)	2.22	1.85	1.41	5.63	3.20	4.73
	(b) Diluted EPS (Rs.) (Not annualized)	2.22	1.85	1.47	5.63	3.34	4.88

NOTES :

- The above unaudited consolidated financial results for the quarter and nine months ended December 31, 2023, have been reviewed by the Audit Committee and approved by the Board of Directors at their respective meetings held on February 6, 2024. The statutory auditors have carried out a limited review of the above financial results of the Company.
- These unaudited consolidated financial results have been prepared in accordance with the recognition and measurement principles of Indian Accounting Standards (Ind AS34) 'Interim Financial Reporting' as notified under Section 133 of the Companies Act, 2013, read with the Companies (Indian Accounting Standards) Rules, 2015, as amended. The said financial results represent the results of the Company, its subsidiaries (together referred to as 'Group') and its share in results of associates and jointly controlled entities which have been prepared in accordance with Ind AS-110 'Consolidated Financial Statements' and Ind AS 28 'Investment in Associates and Joint Ventures'.
- Post closure of the quarter ended December 31, 2023, the Finance and Investment Committee of the Board of Directors at its meeting held on January 18, 2024, allotted 1,68,91,891 equity shares to eligible qualified institutional buyers at the issue price of ₹ 296 per equity share, through Qualified Institutions Placement, aggregating to ₹ 500 crores. Pursuant to the allotment of equity shares, the paid-up equity share capital of the Company has increased from ₹ 64,81,92,670 consisting of 32,40,96,335 equity shares to ₹ 68,19,76,452 consisting of 34,09,88,226 equity shares of face value of ₹ 2 each.
- During the quarter ended December 31, 2023, the Company approved the Preferential Issue of up to 9,02,527 fully paid equity shares of face value of ₹ 2 per equity shares, at an issue price of ₹ 277 (including premium of ₹ 275 each) per equity share to M/s Gagandeep Credit Capital Private Limited (entity belonging to Public category) aggregating upto ₹ 25 crores and upto 17,85,714 fully convertible warrants ("warrants"), each carrying a right exercisable by the warrant holder to subscribe to one equity shares of face value of ₹ 2 per warrant, at an issue price (including the warrant subscription price and warrant exercise price) of ₹ 280 per warrant, to Shri Ashok Sarin Anant Raj LLP (entity belonging to Promoter group category) aggregating upto ₹ 50 crores, which was further approved by the shareholders of the Company at the Extra-Ordinary General Meeting held on January 13, 2024. The Company is in the process of taking necessary approvals from the Stock Exchanges for the allotment of securities.
- The Standalone financial results of the Company for the quarter and nine months ended December 31, 2023 are available on the Company's Website (www.anantrajlimited.com).

KEY STANDALONE FINANCIAL INFORMATION IS GIVEN BELOW :- (Rs. in Crores)

Sl. No.	PARTICULARS	QUARTER ENDED				YEAR ENDED
		31.12.2023		31.12.2022		31.03.2023
		(Unaudited)	(Unaudited)	(Unaudited)	(Unaudited)	(Audited)
1.	Total Income	228.84	201.49	205.85	618.69	542.35
2.	Profit/(loss) Before Tax	45.52	39.65	43.86	120.11	108.56
3.	Profit/(loss) After Tax	35.03	28.30	32.11	89.19	78.87
4.	Other Comprehensive Income/(loss)	-	-	-	-	0.28
5.	Total Comprehensive Income/(loss)	35.03	28.30	32.11	89.19	78.87

The above is an extract of the detailed format of Unaudited Financial Results (Standalone and Consolidated) for the quarter and nine months ended December 31, 2023, filed with Stock Exchanges under Regulation 33 of SEBI (Listing obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015. The full format of Unaudited Financial Results (Standalone and Consolidated) of the Company for the quarter and nine months ended December 31, 2023 are available on websites of National Stock Exchange of India Limited and BSE Limited (www.nseindia.com and www.bseindia.com) and on the Company's website at www.anantrajlimited.com

FOR AND ON BEHALF OF THE BOARD OF DIRECTORS
For ANANT RAJ LIMITED
Sd/-
(AMIT SARIN)
Managing Director
DIN : 00015837

Place : NEW DELHI
Date : February 6, 2024

